

# आईटीआई लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम)



## प्रेस विज्ञप्ति

### कोविड-19 के खिलाफ लड़ते हुए - आईटीआई लिमिटेड ने शुरू किया फेस शील्ड का निर्माण कार्य

- भारत सरकार के आत्म निर्भर भारत अभियान के पूरक अग्रपंक्ति श्रमिकों की सुरक्षा करना ।
- आने वाले दिनों में प्रतिदिन 15,000-20,000 फेस शील्ड की क्षमता के साथ स्थापित विनिर्माण की सुविधा ।
- अस्पताल, नागरिक निकायों, पुलिस कार्मिक, गैर सरकारी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के लिए अनुपूरक फेस शील्ड ।

बेंगलूरु, 26 मई 2020 : भारत सरकार के लक्ष्य आत्म निर्भर भारत अभियान के उद्देश्य को मजबूत करने और कोरोनावायरस के प्रसार को रोकने के लिए, संचार मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम आईटीआई लिमिटेड ने अपनी बेंगलूरु स्थित इकाई में फेस शील्ड का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया है ।

3डी डिज़ाइन युक्त अनोखा और सुरक्षित फेस शील्ड चेहरे के संपूर्ण क्षेत्र जैसे आँख, नाक और मुँह को स्प्रे और बूँदों से सुरक्षा प्रदान करता है । यह स्वदेशी फेस शील्ड बिना किसी तकलीफ के साँस लेने के लिए बहुत ही सुविधाजनक है ।

आईटीआई लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री आर एम अग्रवाल ने कंपनी द्वारा उठाए गए इस अभिनव पहल पर टिप्पणी करते हुए कहा कि, “ आईटीआई कोरोनावायरस के खिलाफ लड़ाई में शामिल हो गया है क्योंकि इस देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या हर रोज बढ़ रही है और देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम होने के नाते यह हमारा दायित्व है कि हम देश भर में कोरोना योद्धाओं की मदद करें । कंपनी हर महीने 5,00,000 फेस शील्ड का उत्पादन करने में सक्षम है जिसे आने वाले दिनों में प्रति माह 15,00,000 तक बढ़ाया जा सकता है ।“

“पहले चरण में, कंपनी पूरक आधार पर विभिन्न चिकित्सीय संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, गैर सरकारी संगठनों और स्थानीय प्रशासनों को यह फेस शील्ड प्रदान कर रही है । श्री अग्रवाल ने आगे कहा कि दूसरे चरण में हम उन विभिन्न संगठनों जैसे हवाई अड्डों, नगर निगमों, पुलिस विभागों, राज्य सरकारों, कॉरपोरेट्स आदि को भी प्रदान करने की योजना बना रहे हैं ।“